

Day 13 - Useful constructions

आज हम कुछ **general** बातें करना सीखते हैं। कुछ ऐसे **sentences** बोलना और बनाना जिनका **use** हम अपनी **daily conversation** में करते हैं।

सबसे पहले बात करते हैं कि हम किस तरह यह बताएंगे कि कोई कार्य हम कितनी बार करते हैं चाहे वो अपने **friends/ family members** को बताना हो या फिर **interview** में पूछे गए **question** का **answer** देना हो।

मान लीजिए आप किसी से **shopping** के बारे में बात कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि आप **month** में कितनी बार **shopping** करते हैं या **mall** जाते हैं तो आप कुछ इस तरह बोल सकते हैं -

Question कुछ इस तरह पूछ सकते हैं -

How often do you go for shopping? (आप कितनी बार खरीदारी करने के लिए जाते हैं?)

How often do you go to mall? (आप कितनी बार मॉल जाते हैं?)

इसके **answer** देने के लिए **Always, Usually, Frequently, Often, Sometimes, Rarely, Hardly, Hardly ever, Never** जैसे शब्दों का **use** आप अपने **sentence** में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप **daily, hourly, monthly, weekly** जैसे **words** का भी **use** कर सकते हैं। इन सभी **words** को

Adverbs of Frequency कहते हैं।

Frequency →	Adverbs of Frequency →	Example
100% हमेशा)	always	I always go to the mall. (मैं हमेशा मॉल जाता हूँ। always - हमेशा)
90% हूँ। usually - अक्सर)	usually	I usually go to the mall. (मैं आमतौर पर मॉल जाता हूँ। usually - अक्सर)
80% मॉल जाता हूँ। normally - अक्सर/ आम तौर पर)	normally / generally	I normally go to the mall. (मैं आम तौर पर मॉल जाता हूँ। normally - अक्सर/ आम तौर पर)
70% often - अक्सर)	often/ frequently	I often go to the mall. (मैं अक्सर मॉल जाता हूँ। often - अक्सर)
50% जाता हूँ। sometimes - कभी-कभी)	sometimes	I sometimes go to the mall. (मैं कभी-कभी मॉल जाता हूँ। sometimes - कभी-कभी)

30% occasionally I occasionally go to the mall. (मैं कभी-कभी मॉल जाता हूँ। **occasionally** - कभी-कभी लेकिन कम)

10% seldom I seldom go to the mall. (मैं शायद ही कभी मॉल जाता हूँ। **seldom** - शायद ही कभी)

5% hardly ever / rarely I hardly ever go to the mall. (मैं शायद ही कभी मॉल जाता हूँ। **hardly ever** - शायद ही कभी लगभग ना के बराबर)

0% never I never go to the mall. (मैं मॉल कभी नहीं जाता हूँ। **never** - कभी नहीं)

कुछ और examples:

Some staffs go out for lunch **every day**. (कुछ कर्मचारी हर दिन दोपहर के भोजन के लिए बाहर जाते हैं।)

The sales director gets new e-mail **hourly**. (बिक्री निदेशक को प्रति घंटा एक नया ई-मेल मिलता है।)

Payroll must be done **every three weeks**. (पेरोल हर तीन सप्ताह में किया जाना चाहिए। **Payroll** - कुल वेतन भुगतान)

I **always** remember to do my projects. (मुझे हमेशा मेरे प्रोजेक्ट्स करना याद रहता है।)

He **normally** gets good marks in **quarterly** exams. (वह आमतौर पर त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है।)

The employees are **always working until seven**. (कर्मचारी हमेशा सात बजे तक काम कर रहे हैं।)

He is **always late for class**! (वह कक्षा के लिए हमेशा देर से आता है!)

She is **constantly nagging me to lose weight**. (वह लगातार मुझे वजन कम करने के लिए परेशान कर रही है। **nagging** - (of a person) constantly harassing someone to do something)

My friend is **often ill in winter**. (मेरा दोस्त सर्दियों में अक्सर बीमार रहता है।)

USE OF NEED TO

जब हमें कोई कार्य करने की जरूरत या आवश्यकता हो तो हम **need to + verb** की **base form** का प्रयोग करते हैं। सभी **subjects** के साथ **need to** का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे -

I need to learn English. (मुझे अंग्रेज़ी सीखने की जरूरत है।)

You need to take medicines. (आपको दवाई लेने की जरूरत है।)

Nisha need to study. (निशा को पढ़ाई करने की जरूरत है।)

The children need to eat green vegetables. (बच्चों को हरी सब्जियाँ खाने की आवश्यकता है।)

I need to talk to you. (मुझे आपसे बात करने की जरूरत है।)

Raj need to work. (राज को काम करने की जरूरत है।)

जब आपको कोई कार्य करने की आवश्यकता ना हो तो उसे बताने के लिए **need not to** का प्रयोग करते हैं। जैसे -

I need not to study hard. (मुझे मेहनत से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है।)

They need not to do exercise. (उन्हें व्यायाम करने की जरूरत नहीं है।)

We need not to go together. (हमें एक साथ जाने की जरूरत नहीं है।)

Vijendra need not to work at all. (विजेंद्र को कोई काम करने की जरूरत नहीं है।)

She need not to go for practice. (उसे अभ्यास के लिए जाने की जरूरत नहीं है।)

I need not to talk to her. (मुझे उससे बात करने की जरूरत नहीं है।)

Use of 'It's hard for me to'

जब हमें यह बताना हो कि यह हमारे लिए करना मुश्किल (कठिन) है या चुनौतीपूर्ण है तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेज़ी में बोलने के लिए **'hard for me'** का उपयोग करते हैं। जैसे -

It's hard for me to accept what you are telling me. (आप जो मुझे बता रहे हैं यह मेरे लिए स्वीकार करना मुश्किल है।)

It's hard for me to argue with you. (मेरे लिए आपसे बहस करना मुश्किल है।)

It's hard for me to balance my diet. (मेरे लिए अपनी खुराक को संतुलित करना मुश्किल है।)

It's hard for me to concentrate on the studies. (मेरे लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल है।)

इसी तरह जब हमें यह बताना हो कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए वह काम करना मुश्किल है, तो **hard for** के साथ अन्य **pronoun** का प्रयोग करते हैं। जैसे -

It is hard for her to accept the truth. (उसके लिए सच्चाई को स्वीकार करना कठिन है।)

It is hard for him to challenge his senior. (उसके लिए अपने वरिष्ठ को चुनौती देना चुनौतीपूर्ण है।)

It is hard for them to access the account. (उनके लिए खातों का उपयोग करना कठिन है।)

It is hard for him to guarantee your success. (उसके लिए तुम्हारी सफलता की गारंटी देना कठिन है।)

I've heard that + (subject + verb)

जब किसी को इस बात से अवगत कराना हो कि आपको उस घटना के बारे में पता है या आपको बताया गया है। वह घटना भूतकाल की या निकट भविष्य की हो सकती है। हिंदी में हम वाक्य को "मैंने सुना है कि..." से प्रारम्भ करते हैं। अंग्रेज़ी बोलते समय वाक्य को **I've heard that...** से शुरू करते हैं। **that** के बाद **subject (any name or pronoun) + verb** का प्रयोग करते हैं। जैसे -

I've heard that she got a new job. (मैंने सुना है कि उसे एक नई नौकरी मिल गई।)

I've heard that you want to leave your job. (मैंने सुना है कि आप अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं।)

I've heard that Nithin like to jog. (मैंने सुना है कि नितिन को सैर करना पसंद है।)

I've heard that you like to shop. (मैंने सुना है कि आप को खरीदारी पसंद है।)

I've heard that there is no school next week. (मैंने सुना है कि अगले सप्ताह कोई स्कूल नहीं है।)

I've heard that your father is a principal. (मैंने सुना है कि आपके पिता एक प्रिंसिपल हैं।)

कुछ users ने whatsapp पर अपनी queries भेजी थी। तो आज की इस bonus क्लास में हम कुछ उन queries को लेते हैं और कुछ topics को revise करते हैं।

Use of 'Should have'

हम 'should have' का प्रयोग भूतकाल की उस घटना को बताने के लिए होता जो पूरी नहीं हुई हो। अन्य शब्दों में **should have** का प्रयोग उन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए होता है जो **past** में **recommended** की गयी हो।

I should have talked to him. (मुझे उससे बात करनी चाहिए थी।)

I should have left my house earlier. (मुझे अपने घर से पहले निकलना चाहिए था।)

You should have worked hard. (आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी।)

'should not have' का प्रयोग क्या हो सकता था या नहीं हो सकता था, उसकी नकारात्मक प्रक्रिया देने के लिए कर सकते हैं। जैसे -

She shouldn't have left work yet. I'll call her office. (उसको अभी काम छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था। मैं उसके कार्यालय फोन करता हूँ।)

I should not have talked to him. (मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी।)

Rohit should not have sold his watch. (रोहित को अपनी घड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी।)

should have/ shouldn't have का प्रयोग कर यह भी दर्शाया जा सकता है कि **past** में अगर कोई **action** (क्रिया) होती तो वह बेहतर हो सकता था। जैसे -

You should have studied. You shouldn't have played video games all weekend. (तुमको अध्ययन करना चाहिए था। तुम्हें सभी सप्ताहांत वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए था।)

When should we have gone there? (हमें वहां कब जाना चाहिए था?)

Should they not have cleaned their rooms? (क्या उन्हें अपने कमरों की सफाई नहीं करनी चाहिए थी?)

Use of "Could have..."

वाक्य में **could have** का प्रयोग भूतकाल की किसी योग्यता को दर्शाता है। वह योग्यता तो व्यक्ति के पास थी पर उसने उसके प्रयोग नहीं किया। अन्य शब्दों में काम करने की शक्ति थी पर काम नहीं किया गया। जैसे

We could have come earlier. (हम पहले आ सकते थे।)

I could have learnt English. (मैं अंग्रेज़ी सीख सकता था।)

She could have studied law, but she preferred to become a secretary. (वह कानून का अध्ययन कर सकती थी, लेकिन उसने सेक्रेटरी बनना पसंद किया।)

You could not have run fast. (आप तेज़ नहीं दौड़ सकते थे।)

He couldn't have passed the exam. (वह परीक्षा पास नहीं कर सकता था।)

Could we have lived there? (क्या हम वहाँ रह सकते थे?)

कभी कभी हम **could have** का प्रयोग उस समय भी करते हैं जब हमें अनुमान लगाना हो कि भूतकाल में क्या हुआ होगा। जैसे :

Why is Atul late? (अतुल क्यों देर से है?) --> **He could have got stuck in traffic.** (वह ट्रैफिक में फंसा हो सकता था।)

हिंदी में जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में "सकता था/ सकती थी/ सकते थे" आता है, उस क्रिया का अनुवाद **could have** में होता है। सभी **subjects** के साथ **could have** का प्रयोग होता है। **could have** के साथ क्रिया की **3rd form (past participle)** का प्रयोग होता है।